

हरि विद्या भवन विषय - हिंदी

सामान्य निर्देश

- * प्रस्तुत कार्य अपनी हिंदी साहित्य की पुस्तिका में कीजिए। किसी अन्य पुस्तिका में किया गया कार्य स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- * सभी विद्यार्थियों को परीक्षा हेतु यह कार्य करना अनिवार्य है।
- * वर्कशीट में दिए गए पाठ और कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
- * वर्कशीट से सम्बंधित समस्या पूछने के लिए आप अपने कक्षा ग्रुप पर सुबह 8 बजे से 3 बजे तक मैसेज कर सकते।

हरि विद्या भवन

कक्षा - नौवी

विषय - हिंदी

तारीख -30.12.20

वर्कशीट-55

अभ्यास कार्य

सामान्य निर्देश-दिया गया कार्य अपने साहित्य की कॉपी में करिए।

प्रश्न 1. किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है?

प्रश्न 2. खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था?

प्रश्न 3. उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा?

प्रश्न 4. उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था?

प्रश्न 5. बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता था?

HARI VIDYA BHAWAN

Worksheet – 55

Class- IX

Subject- Science

(Session- 2020-21)

Ch-2 Is matter around us pure?

Date-30/12/2020

Instructions to be followed:

- From now onwards students do your worksheet in your particular subject notebook respectively. Don't use rough sheets, old copies or anything else. All the stationary shops have already opened. So, you can purchase it.
 - All the student must complete their worksheets as Periodic test marks will be given to those who completes it else you will have to go through pen paper test after the school reopens.
 - Read each and every topic (which will be given in worksheets) of the chapters from NCERT Books.
 - All the students must purchase NCERT books as it will help you to understand the chapter.
 - If you have any query related to worksheet, ask your queries in WhatsApp group between 8:00 am to 3:00 pm.
-

Multiple Choice Questions:

Q.1 Which of the following does not have a fixed melting point/boiling point?

- (a) gold (b) ethanol (c) air (d) oxygen

Q.2 One of the following is a solid foam. This one is:

- (a) butter (b) bread (c) shaving cream (d) ruby

Q.3 Which of the following is not an emulsion?

- (a) Soap solution (b) ink (c) sugar solution (d) starch solution

Q.4 Which one of the following is not a chemical change?

- (a) formation of curd (b) ripening of banana
(c) sublimation of naphthalene (d) corrosion of photo frame

Q.5 One of the following represents the solution of solid in a solid. This one is-

- (a) boron (b) brass (c) beryllium (d) bread

Answer the following questions:

Q.6 Define Solute and solvent.

Q.7 Which of the following will show tyndall effect? Why?

- (a) Salt solution (b) Starch solution
(c) Milk (d) Copper sulphate solution

Q.8 21.5 g of sodium chloride dissolves in 60 g of water at 25°C. Calculate the solubility of sodium chloride in water at that temperature.

Q.9 9.72 g of potassium chloride dissolves in 30 g of water at 70°C. Calculate the concentration of solution.

Q.10 Define the following:

- (a) Aerosol (b) Foam

Note-

- This worksheet is for your self assessment. To solve the above questions read all the notes of chapter 2 and try to answer them.
- All the Practice worksheets have to be done in same notebook whichever you are using for writing notes.